



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062025-263997
CG-DL-E-20062025-263997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2680]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947

No. 2680]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

का.आ. 2745(अ).— केंद्रीय सरकार ने, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 284(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा मेसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 'प्रवर्ग क खोज अभिकरणों' के अधीन अधिसूचित किया है;

2. और, मेसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् के राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (क्यूसीआई-एनएबीईटी) से अपनी प्रारंभिक मान्यता अवधि पूरी होने पर, पुनः मान्यता प्राप्त कर ली है;

3. अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के खान मंत्रालय के तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI द्वारा जारी मान्यता प्राप्त निजी

खोज अभिकरणों की अधिसूचना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि का उक्त अधिसूचना की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए या प्रदान की गई पुनः मान्यता की समाप्ति या अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले हो, विस्तार करती है।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI- भाग(I)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण -मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 284(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

S.O. 2745(E)— Whereas, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government notified M/s. United Exploration India Private Limited under 'Category A Exploration Agencies' *vide* notification number G.S.R. 284(E) dated the 7th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th April, 2022 (hereinafter referred to as the said notification);

2. And whereas, upon completion of its initial accreditation period, M/s. United Exploration India Private Limited has obtained re-accreditation from the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India (QCI-NABET);

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act and in accordance with the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines *vide* Order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby extends the period specified in the said notification for a further period of three years from the date of expiry of the said notification or till expiry of the re-accreditation granted or further order, whichever is earlier.

4. This notification shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI-Part(1)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note .— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 7th April, 2022.